





## राज्यसभा : बजट सत्र के पहले चरण में 99 फीसद हुआ कामकाज

नई दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा)।

राज्यसभा 29 जनवरी से शुरू हुआ बजट सत्र का पहला चरण शुक्रवार को पूरा हो गया और इस दौरान उच्च सदन में 99 फीसद कामकाज हुआ।

उच्च सदन में शुक्रवार को बजट पर चर्चा पूरी होने के बाद बैठक स्थगित कर दी गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बजट सत्र का दूसरा चरण आठ मार्च को शुरू होगा और आठ अप्रैल तक चलेगा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन की बैठक स्थगित करने से पहले कहा कि इस चरण में उच्च सदन में 99 फीसद कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि मौजूदा सप्ताह में सदन में 113 फीसद और पिछले सप्ताह 82 फीसद कामकाज हुआ।

## मौसम बिगड़ने के आसार, उत्तराखंड में बारिश व बर्फबारी की संभावना

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 12 फरवरी

एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते आने वाले दिनों में एक बार फिर से मौसम के बिगड़ने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में 14 से 16 फरवरी के बीच हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। वहीं, मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी एंजंसी स्काईमेट ने बताया है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में उत्तराखंड में व्यापक बर्फबारी की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्के बादलों के चलते मौसम गर्म है और स्मॉग (धुंध) जैसी स्थिति बनी हुई है।

मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में 14 से 16 फरवरी के बीच हल्की बारिश या बर्फबारी संभव है। 13 फरवरी तक देश के अधिकांश इलाकों समेत राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा, लेकिन 14 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में 14 फरवरी से हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिलेगी। चमोली उत्तराखंड का वही जिला है, जहां हाल ही में ग्लेशियर फटने की घटना सामने आई थी। मौसम विभाग की मांे तो 16 फरवरी तक जिले में ऐसा ही मौसम

नायडू ने कहा कि इस दौरान राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर लंबी चर्चा हुई जिसमें करीब 100 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सत्र के इस चरण में लोक महत्व के विषयों के तहत 88 मुद्दे उठाए गए जिनमें 56 विषय शून्यकाल के तहत और 32 विषय विशेष उल्लेख के जरिए उठाए गए। नायडू ने कहा कि दो सप्ताह के इस चरण में सदन ने तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी भी दी। इन विधेयकों में महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक और दिल्-ली कानून विशेष प्रावधान-द्वितीय संशोधन विधेयक-2021 शामिल हैं।

उन्होंने सभी सदस्यों से अपील कि वे संसद की विभिन्न स्थाई समितियों की बैठक में भाग

लें और अपने सुझाव रखें।

नायडू ने इस मौके पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के अलावा भाजपा नेता शमशेर सिंह मन्हास, पीडीपी नेता मीर मोहम्मद फयाज और नाजिर अहमद को शुभकामनाएं दी और कहा कि उनकी कमी महसूस की जाएगी। इन चारों सदस्यों का कार्यक्रम पूरा हो रहा है।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यसभा में बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी को पूरा होना था। किंतु गुरुवार, को सभापति नायडू ने सदन में घोषणा की थी कि कार्य मंत्रणा समिति में विभिन्न दलों के नेताओं के बीच बनी सहमति के आधार पर यह तय किया गया कि उच्च सदन में बजट सत्र के पहले चरण को शुक्रवार को ही पूरा कर लिया जाए।

## अंग्रेजों के जमाने के हैं रेलवे के 34,665 पुल

नई दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा)।

भारतीय रेल के 34,665 पुलों की आयु 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी है हालांकि सरकार उनकी वास्तविक स्थिति का समय समय पर आकलन करती रहती है और साल में दो बार उनका निरीक्षण किया जाता है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में विभिन्न पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे पुलों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए सुच्यवस्थित प्रणाली है और इसके तहत सभी पुलों का साल में दो बार निरीक्षण किया जाता है। गोयल ने कहा कि इन पुलों को मानसून शुरू होने से पहले और फिर मानसून खत्म होने के बाद विस्तृत निरीक्षण किया जाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रणाली में पुल की हालत का निरीक्षण करने के लिए संख्यात्मक रेंडिंग पद्धति है। उन्होंने कहा कि पुलों के वर्गीकरण की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने की सरकार की कोई योजना नहीं है और रेल पुलों को जलमार्ग की जरूरतों के आधा पर महत्वपूर्ण, बड़े एवं छोटे पुलों में वर्गीकृत किया जाता है।

गोयल ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि एक अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार 7.5 लाख करोड़ रुपए की लागत पर कुल 513 रेल परियोजनाएं योजना, स्वीकृति और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। ये परियोजनाएं 53,039 किलोमीटर लंबाई की हैं और उनमें से 10,013 किलोमीटर लंबाई के मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है और मार्च 2020 तक 1.86 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

## संसद ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 12 फरवरी (भाषा)।

संसद ने शुक्रवार को महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें बड़े बंदरगाहों को सक्षम बनाने और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाने का उपबंध किया गया है। पौत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में विधेयक को रखा और सदन ने इसे ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इस विधेयक को 23 सितंबर 2020 को

पहले ही लोकसभा पारित कर चुकी थी और 10 फरवरी 2021 को राज्यसभा ने संशोधनों के साथ इसे पारित किया था। शुक्रवार को राज्यसभा के संशोधनों के साथ विधेयक को पास करने के लिए निचले सदन में लाया गया।

सरकार का कहना है कि विधेयक के संबंध में स्थायी समिति की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए प्रस्तावित बोर्डों में विभिन्न क्षेत्रों का

प्रतिनिधित्व होगा। मंडाविया ने राज्यसभा में कहा था कि इसमें राज्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व होगा और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि बंदरगाहों को पीपीपी मॉडल (सार्वजनिक निजी भागीदारी) के तहत विकसित करने का फैसला किया गया है। इस विधेयक को लाने का उद्देश्य बड़े बंदरगाहों को सक्षम और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

### यवतमाल में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे टिकैत नागपुर (महाराष्ट्र), 12 फरवरी (भाषा)।

किसान नेता राकेश टिकैत महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 20 फरवरी को ‘किसान महापंचायत’ को संबोधित करेंगे। केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगी सीमाओं पर 40 किसान संगठनों के विशेष प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने यह जानकारी दी। एसकेएम के महाराष्ट्र के समन्वयक संदीप गिड्डे ने गुरुवार को बताया कि टिकैत, युदवीर सिंह और एसकेएम के कई अन्य नेता 20 फरवरी को यवतमाल शहर के आजाद मैदान में आयोजित होने वाली ‘किसान महापंचायत’ को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा, ‘टिकैत महाराष्ट्र में किसान महापंचायत को शुरुआत यवतमाल से करना चाहते हैं, जहां कई किसानों ने आत्महत्या की है।’

#### मिजोरम में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4391 हुई

आइजल, 12 फरवरी (भाषा)।

मिजोरम में कोविड-19 का एक नया मामला सामने आने के बाद शुक्रवार को संक्रमितों की संख्या 4,391 हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि लुंगलेई जिले में 11 वर्षीय लड़की में संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के दौरान नया मामला सामने आया।

उन्होंने बताया कि राज्य में 21 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 4,361 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में संक्रमण से नौ लोगों की मौत हुई है। अधिकारी ने बताया कि राज्य में कुल 2,19,250 नमूनों की जांच की गई है।

## तमिलनाडु में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट, 11 लोगों की मौत

विरुद्धनगर (तमिलनाडु), 12 फरवरी (भाषा)।

तमिलनाडु के इस दक्षिणी जिले में सत्तूर के पास शुक्रवार को एक पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में कम से कम 11 श्रमिकों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि अच्छनकुलम गांव में स्थित इस पटाखा फैक्टरी में पटाखे बनाने के लिए कुछ रसायनों को मिलाया जा रहा था, तभी यह विस्फोट हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस घटना पर शोक प्रकट किया है। मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख

## गोवा में अपंजीकृत होटलों पर कार्रवाई शुरू

पणजी, 12 फरवरी (भाषा)।

गोवा के मंत्री मनोहर अजगांवकर ने शुक्रवार को कहा कि पर्यटन विभाग ने उन होटलों पर कार्रवाई शुरू की है जो पंजीकरण कराए बिना अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। संवाददाताओं से बातचीत में पर्यटन मंत्री ने कहा कि कई पर्यटक अपंजीकृत आवास सुविधाओं में रुकते हैं जिसके कारण

राज्य में आने वाले पर्यटकों की सही गणना नहीं हो पाती।

अजगांवकर ने कहा कि कंसल्टेंसी फर्म केपीएमजी द्वारा किए गए शुरुआती सर्वे के मुताबिक, पिछले पर्यटन वर्ष (2019-20) में कम से कम 80 लाख पर्यटक राज्य में आए।

उन्होंने कहा कि फर्म ने अपंजीकृत होटलों और आवासों को शामिल करने के बाद फिर से एक सर्वेक्षण किया,

मुंबई, 12 फरवरी (भाषा)।

जर्मनी की एयरलाइन लुफ्थांसा ने भारत में रखे गए 103 उड़ान परिचारकों को ‘नौकरी का गारंटी’ मांगने पर सेवा से निकाल दिया है। कंपनी ने उन्हें दो साल तक बिना वेतन के अवकाश पर जाने का विकल्प दिया था। मामले से जुड़े सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि ये कर्मचारी एयरलाइन के साथ एक निश्चित अनुबंध पर काम कर रहे थे और इनमें से कुछ 15 साल से अधिक समय से कंपनी के साथ थे।

लुफ्थांसा के एक प्रवक्ता ने एंजंसी को

### हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी के दो साथियों को दी अंतरिम जमानत

इंदौर, 12 फरवरी (भाषा)

हिंदू देवी-देवताओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के विवाद से जुड़े हास्य कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के दो आरोपियों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। दोनों आरोपी नववर्ष की पहली तारीख को गिरफ्तारी के बाद से यहां केंद्रीय जेल में बंद हैं। उच्च न्यायालय के इंदौर पीठ के

न्यायमूर्ति रोहित आर्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत को आदेश दिया कि वह प्रखर व्यास (23) और एड्विन एंथोनी (25) को अंतरिम जमानत पर रिहा करें। मामले के मुख्य आरोपी मुनव्वर फारूकी को उच्चतम न्यायालय ने पांच फरवरी को अंतरिम जमानत दे दी थी।

व्यास और एंथोनी के वकीलों ने शीर्ष अदालत के इस आदेश का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय से गुहार की कि समानता के न्यायिक सिद्धांत के

आधार पर उनके मुक्किलों को भी जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आनन-फानन में आरोपियों की गिरफ्तारी के वक्त दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 का उल्लंघन किया गया था। उधर, अभियोजन ने दावा किया कि मामले में प्रावधान के तहत वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया था और निचली अदालत के एक आदेश में भी इस बात का उल्लेख किया गया है।

							<h1>कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड</h1>		
पंजीकृत कार्यालय <span> </span> : प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोच्ची – 682015 दूरभाष <span> </span> : 0484 2501306, फैक्स: 0484 2370897, वेबसाइट/Website: www.cochinshipyard.com, CIN: L63032KL1972G0002414									
दिनांक 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही और नौ महीने हेतु अलेखपरीक्षित स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय परिणामों का उद्धरण									
							(रुपए लाख में)		
क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलॉन			समेकित				
		समाप्त तिमाही	समाप्त नौ महीने	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ महीने	समाप्त वर्ष		
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.03.2020	31.12.2020	31.12.2020	31.03.2020	
		(अलेखपरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(अलेखपरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)				
1	प्रचालनों से कुल आय	74869.73	89608.66	173857.79	342249.39	74869.73	89608.66	173857.79	342249.39
2	अर्थां केलिए निव्वल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, असामान्य और/या असाधारण मर्)े	30801.63	22967.13	51232.03	86342.58	30196.95	22822.67	50354.16	85772.00
3	अर्थां केलिए कर पूर्व निव्वल लाभ/(हानि) (असामान्य और/या असाधारण मर् के बाद)	30801.63	22967.13	51232.03	86342.58	30196.95	22822.67	50354.16	85772.00
4	अर्थां केलिए कर के बाद निव्वल लाभ/(हानि) (असामान्य और/या असाधारण मर् के बाद)	22948.02	17108.85	38049.07	63768.75	22373.34	16981.44	37233.06	63200.99
5	अर्थां केलिए कुल व्यापक आय (अर्थां केलिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	23241.91	16833.31	38380.57	63171.91	22667.23	16705.90	37564.56	62604.15
6	इन्विस्टी शेयर मुंबी	13154.04	13154.04	13154.04	13154.04	13154.04	13154.04	13154.04	13154.04
7	आरक्षण (भूमि-व्यक्त आरक्षण को छोड़कर)-फिरने वर्ग के लेखापरीक्षित नुननपत्र में दर्शाए अनुसार।				360025.46				359134.31
8	प्रति शेयर (प्रत्येक 10 रुपये के) आय (चालू और बंद किए प्रचालनों केलिए) मूल एवं तनुकृत (रु.)	17.45	13.01	28.93	48.48	17.01	12.91	28.31	48.05

टिप्पणियां:

- उपर्वक सेबी (सूचिवद्ध और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 को विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ फाइल किए गए अलेखपरीक्षित स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय परिणामों का एक विस्तृत उद्धरण हे। लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी को वेबसाइट www.cochinshipyard.com में और भारत के राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट www.nseindia.com में तथा बीएसई लिमिटेड के वेबसाइट www.bseindia.com में उपलब्ध है।

- उपर्वक दिनांक 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ महीने के अलेखपरीक्षित वित्तीय परिणामों का दिनांक 12 फरवरी 2021 को आयोजित निवेशक मंडल की बैठक में इसे अनुमोदित किया एवं रिर्काई किया गया।

- कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक फरवरी 12, 2021 को आयोजित बोर्ड बैठक में 10/- रुपए के अंकित मूल्य के प्रति इन्विस्टी शेयर 4/- रुपए को एक दूसरी अंतरिम लाभोश केलिए सिफारिश को हे। यह दिनांक जनवरी 04, 2021 को आयोजित बोर्ड द्वारा सिफारिश को गई प्रति इन्विस्टी शेयर 9/- रुपए के अंतरिम लाभोश के अतिरिक्त हे।

दिनांक 31 दिसंबर 2020 को आईपीओ को आय से घन का उपयोग

विवरण	रुपए करोड़ में
<b>प्रारंभिक सार्वजनिक पेशाकर (आईपीओ) से आय</b>	<b>961.95</b>
घटाए: आईपीओ व्यव हेतु अनुमानित राशि (कंपनी को शेयर)	21.72
निव्वल आईपीओ आय	940.23
<b>व्याज सहित कुल आय</b>	<b>1034.46</b>
घटाए: निम्न केलिए आय का उपयोग:	
सामान्य निर्गमित उद्देश्य (जोसेबी)	165.23
नई सूची गोदी का निर्माण	501.56
आइएसआरएफ	265.00
<b>आईपीओ आय शेष</b>	<b>0.00</b>

स्थान <span> </span> : कोच्ची	कृते कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
दिनांक <span> </span> : 12 फरवरी, 2021	ह/-
	<b>अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक</b>